



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 आश्विन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 765) पटना, मंगलवार, 1 अक्टूबर 2013

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना  
02 सितम्बर 2013

सं0 22/नि0सि0(भाग0)-09-13/2007/1041—श्री विनीत कुमार, आई0 डी0-3581 तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, शेखपुरा सम्प्रति जल संसाधन विभाग, पटना को शेखोपुर सराय थाना कांड सं0-25/07 (विशेष वाद सं0-30/09) के मामले में कार्रवाई के दौरान दिनांक 18.2.13 से कारावास में लिए जाने के फलस्वरूप उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(2), (क) के तहत दिनांक 18.2.13 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

श्री कुमार के विरुद्ध शेखोपुर सराय थाना कांड सं0-25/07 के अतिरिक्त कोरमा थाना कांड सं0-34/07, शेखपुरा थाना कांड सं0-299/07 एवं बरबीधा थाना कांड सं0-62/07 के मामले में भी माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारन्ट जारी किया गया है जिसका तामिला उन्हें इस गिरफ्तारी के साथ ही कराया जा चुका है।

श्री कुमार को उक्त निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा इस पर माननीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
श्याम कुमार सिंह,  
सरकार के विशेष सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 765-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>